



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1941 (श०)

(सं० पटना 978) पटना, सोमवार, 26 अगस्त 2019

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 जनवरी 2019

सं० 22/नि०सि०(सम०)-02-07/2011/115—श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०-02, खगड़िया संप्रति सेवानिवृत्त के पद पर पदस्थापित थे तब आपके विरुद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०-02, खगड़िया के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में कराए गए कटाव निरोधक कार्य में की गयी अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-43(बी०) में विहित रीति के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1833 दिनांक 23.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-18 दिनांक 27.02.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत श्री श्रीवास्तव से जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में श्री श्रीवास्तव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी०) के अंतर्गत कालबाधित होने एवं सरकार को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति नहीं होने के कारण श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०-02, खगड़िया संप्रति सेवानिवृत्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजभूषण प्रसाद,  
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 978-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>